

जी.ए.आर.7/टी.आर.-6
G.A.R. 7/TR-6
नियम 26(1) देखिए
See Rule 26(1)

चालान संख्या
Challan No.
(Observe)

कृपया उपदर्शित करें कि क्या /
Please indicate whether
सिविल/Civil
रक्षा/Defence
रेल/Railway
डाक तार/Posts & Telegraphs

..... बैंक की शाखा में संदत धन का चालान
Challan of money paid into (Bank) (Branch)
प्रेषक द्वारा भरा जाए
To be filled in by the remitter

विभागीय अधिकारी द्वारा भरा जाए
To be filled in by the Department officer or at his instance

धन जमा करने वाले पक्षकार (अर्थात् कर-दाता आदि) का नाम, पदनाम और पता। Name and/or designation and address of the party (i.e., Tax payer etc) crediting money.	उस विभाग /कार्यालय का नाम जिसकी बहियों से मांग उदभूत हुई Department Office from whose books the demand emanated	प्रेषण की और/या प्राधिकारी (यदि कोई हो) की पूर्ण विशिष्टियाँ Full particulars of the nature of remittance and/or authority (if any)	राशि Amount		लेखा शीर्ष Head of Account	लेखा अधिकारी जिसके द्वारा समायोजनीय है Accounts officer by whom adjustable	बैंक को आदेश Order to the Bank
			रु. Rs.	पै. P.			
1	2	3	4		5	6	7
		*योग *Total					प्राप्त करें और रसीद अनुदत्त करें (धन संदस करने का आदेश देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर तारीख और पूरा पदनाम) Receive and grant receipt (Signature, date and full designation of the Officer ordering the money to the paid in.)

* शब्दों में रूपए

* (in words) Rupees

संदाय प्राप्त किया (शब्दों में) रूपए

Received payment (in words) Rupees.....

.....only.

तारीख
Date

अभिकर्ता या प्रबंधक/अधिकारी
Agent or Manager/Officer
(P.T.O.)

(पृष्ठ भाग)
(REVERSE)

प्रेषक द्वारा भरी जाने वाली विशिष्टियां Particulars to be filled in by the remitter	राशि Amount	
	रु. Rs.	पै. P.
नकद Cash		
बैंक-ड्राफ्ट/Bank Drafts (ब्योरो सहित/With details)		
चेक/Cheques (ब्योरो सहित/With details)		
योग रु. TOTAL Rs.		
RUPEES		